

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2015/फाल्गुन 6, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 207
No. 23]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2015/PHALGUNA 6, 1936	[N.C.T.D. No. 207

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

फा.स. आर. 587/टी.ओ. (एस.)/ टी. सी. फेलिंग/2014-15/9436-43.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा (टुकी प्रोजेक्ट) डी.डी.ए. क्लस्टर का 3000 ई.डब्ल्यू.एस., मल्टी-स्टोरयेड हाउसिंग स्कीम, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3.068 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हेक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा (टुकी प्रोजेक्ट) डी.डी.ए. क्लस्टर का 3000 ई.डब्ल्यू.एस., मल्टी-स्टोरयेड हाउसिंग स्कीम, नई दिल्ली।	3.068 (लगभग)	24	240
		कुल योग	24	240

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 7,72,800 रुपये (सात लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	240	रु- 7,72,800	उप-वन संरक्षक (दक्षिणी)/वन अधिकारी

- (ख) उपभोगी संस्था द्वारा पॉकेट-ए-14, कालकौजी एक्सटेन्सन, नई दिल्ली में 240 पेड़ों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जॉय की जाएगी।
- (ग) उप-वन संरक्षक के परामर्श से जलाऊ लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी (यदि है) को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त जलाऊ लकड़ी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए, यदि उचित हो।
- (घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की दुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE NOTIFICATION

Delhi, the 25th February, 2015

F. No. R. 587/TO(S)/TC.Felling/2014-15/9436-43.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 3.068 ha. (approx) as detailed below for construction of 3000 EWS Multi-storeyed housing scheme of DDA clusters, a (Turnkey Project) New Delhi by Delhi Development Authority (DDA), from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act.

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be Removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	3000 EWS Multi-storeyed housing scheme of DDA clusters, a (Turnkey Project) New Delhi by DDA.	3.068 (approx)	24	240
		Total	24	240

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

- a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 7,72,800 (Rupees Seven Lakh Seventy Two Thousand Eight Hundred Only) towards security for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:--

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	240	7,72,800	DCF (South)/Tree Officer

- b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 240 No. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency i.e. DDA at Pocket-A-14, Kalkaji Extension New Delhi and monitor it till its successful establishment.
- c) The firewood (if any) obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the DDA to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF, if applicable.
- d) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.